



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2003/माघ 11, 1924

No. 92]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2003/MAGHA 11, 1924

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2003

का. आ. 111(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 301(अ) तारीख 21 दिसम्बर, 1999 को आदेश करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा; अर्थात् :—

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली | पदेन अध्यक्ष | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन नियुक्त |
| 2. औषधि नियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली | पदेन सदस्य-सचिव | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन नियुक्त |
| 3. निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला 3 केवाईडी स्ट्रीट कोलकाता-700016 | पदेन सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अधीन नियुक्त |
| 4. निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसोली-173205 | पदेन सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (iv) के अधीन नियुक्त |
| 5. निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243212 बरेली (उ.प्र.) | पदेन सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन नियुक्त |
| 6. अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली | पदेन सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अधीन नियुक्त |
| 7. अध्यक्ष, भारतीय औषधि निर्माण विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली | पदेन सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (vii) के अधीन नियुक्त |
| 8. निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ-226001 | पदेन सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (viii) के अधीन नियुक्त |

- | | | |
|--|-------|---|
| 9. श्री एस. पी. अधसेरा, आयुक्त, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर-382010 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ix) के अधीन नाम निर्देशित |
| 10. श्री एस. एन. त्रिपाठी, निदेशक, खाद्य और औषधि प्रशासन, गोवा पुरानी जी.एम.सी. बिल्डिंग, पणजी-403001 (गोवा) | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ix) के अधीन निर्देशित |
| 11. प्रो. बी. सुरेश, प्राचार्य जे. एस. एस. औषधि निर्माण विज्ञान महाविद्यालय (कोलेज आफ फार्मेसी), ऊटी-643001 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (x) के अधीन निर्वाचित |
| 12. डॉ. सी.एस. जया चन्द्रन, 1-52, अन्नानगर-पूर्वी चेन्नई-600102 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (xi) के अधीन निर्वाचित |
| 13. डॉ. (सुश्री) स्वाति पीरामल, निदेशक निकोलस पीरामल इंडिया लि., 100, सेन्टर प्लाइंट डा.बी. आर. अम्बेडकर रोड, मुम्बई-400012 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (xii) के अधीन निर्वाचित |
| 14. डॉ. एस.डी. सेठ, अध्यक्ष, रोग लक्षण सम्बन्धी भेषज गुण विज्ञान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (आई सी एम आर) नई दिल्ली-110016 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के अधीन निर्वाचित |
| 15. डॉ. संजीव मलिक, महासचिव, भारतीय चिकित्सक संगम मेडीवर्ल्ड हाउस, ई-47/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (xiv) के अधीन निर्वाचित |
| 16. श्री पी.डी. सेठ, अध्यक्ष, भारतीय औषधिक संगम, ई-256, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (xv) के अधीन निर्वाचित |
| 17. श्री जी.एन. भट, सरकारी विश्लेषक, जम्मू-कश्मीर, जम्मू | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (xvi) के अधीन नाम निर्देशित |
| 18. श्री स्वपन कुमार मोइत्रा, निदेशक, औषधि नियंत्रण अनुसंधान प्रयोगशाला, पश्चिमी बंगाल, 2 कंवेन्ट लेन, कोलकाता-700015 | सदस्य | धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (xvi) के अधीन नाम निर्देशित |
2. यह अधिसूचना रापजत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. एक्स-19012/1/2002-डी.एम.एस. तथा पी.एफ.ए.]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, 31st January, 2003

S. O. 111(E).— In pursuance of sub-sections (1) and (2) of section 5 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 301 (E) dated the 21st April, 1999, the Central Government hereby reconstitutes the Drugs Technical Advisory Board consisting of the following members, namely: —

- | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| 1 | The Director General of Health Services, New Delhi | Ex-officio Chairman | Appointed under clause(i) of sub-section(2) of section 5. |
| 2 | The Drugs Controller, India New Delhi | Ex-officio Member-Secretary | Appointed under clause(ii) of sub-section(2) of section 5. |
| 3 | The Director, Central Drugs Laboratory, 3 kyd Street, Kolkata – 700016 | Ex-officio Member | Appointed under clause(iii) of sub-section(2) of section 5. |
| 4 | The Director, Central Research Institute, Kasauli-173205 | Ex-officio Member | Appointed under clause(iv) of sub-section(2) of section 5. |
| 5 | The Director, India Veterinary Research Institute, Izatnagar- 243122 Bareilly (U.P) | Ex-officio Member | Appointed under clause(v) of sub-section(2) of section 5. |
| 6 | The President, Medical Council of India, New Delhi | Ex-officio Member | Appointed under clause(vi) of sub-section(2) of section 5. |

| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| 7 | The President, Pharmacy Council of India, New Delhi | Ex-officio Member | Appointed under clause(vii) of sub-section(2) of section 5. |
| 8 | The Director, Central Drugs Research Institute, Lucknow-226001 | Ex-officio Member | Appointed under clause(viii) of sub-section(2) of section 5. |
| 9 | Mr.S.P. Adheshra, Commissioner, Food and Drugs Control Administration, Gujarat, Dr. Jivraj Mehta Bhawan , Gandhi Nagar-382010 | Member | Nominated under clause(ix) of sub-section(2) of section 5. |
| 10 | Mr. S.N. Tripathi, Director, Food and Drugs Administration, Goa, Old GMC Building, Panaji- 403001(Goa) | Member | Nominated under clause(ix) of sub-section(2) of section 5. |
| 11 | Prof. B. Suresh , Principal ,JSS College of Pharmacy Ooty-643001 | Member | Elected under clause(x) of sub-section(2) of section 5. |
| 12 | Dr. C.S. Jaya chandran , 1-52, Anna Nagar East Channai-600102 | Member | Elected under clause(xi) of sub-section(2) of section 5. |
| 13 | Dr. (Ms) Swati Piramal, Director, Nicholas Piramal India Ltd., 100, Centre Point, Dr. B.R. Ambedkar Road, Mumbai – 400012 | Member | Elected under clause(xii) of sub-section(2) of section 5. |
| 14 | Dr. S.D. Seth, Chair in Clinical Pharmacology, ICMR, New Delhi - 110016 | Member | Elected under clause(xiii) of sub-section(2) of section 5. |
| 15 | Dr. Sanjeev Malik, Secy. General. IMA, Mediworld House, E-47/7, Okhla Ind.Area, Phase-II New Delhi-110020 | Member | Elected under clause(xiv) of sub-section(2) of section 5. |

- | | | | |
|----|---|--------|---|
| 16 | Mr. P.D. Sheth, President, Indian Pharmaceutical Association, E-256, Greater Kailash-1, New Delhi-110048 | Member | Elected under clause(xv) of sub- section(2) of section 5. |
| 17 | Sh. G.N. Bhatt, Government Analyst, Jammu and Kashmir Jammu | Member | Nominated under clause(xvi) of sub- section(2) of section 5. |
| 18 | Sh. Swapan Kumar Moitra, Director, Drugs Control Research Laboratory, West Bengal, 2,Convent lane, Kolkata-700015 | Member | Nominated under clause(xvi) of sub- section(2) of section 5. |

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. X-19012/1/2002-DMS &PFA]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

284-11/03-2